Ref: SEC/SE/ 2022-23 Date: 13.07.2022

Scrip Symbol: NSE - DABUR, BSE Scrip Code- 500096



Corporate Relation Department **BSE Ltd.**Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai – 400 001.

National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, 5th Floor Plot No. C/1, G Block Bandra – Kurla Complex Bandra (E) <u>Mumbai</u> – 400 051.

#### Sub: Newspaper publication regarding Annual General Meeting (AGM) and Book Closure

Dear Sir(s),

In compliance of provisions of Regulation 42 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), we are pleased to enclose a copy each of the Financial Express (English Daily) and Jansatta (Hindi Daily) both dated 13<sup>th</sup> July, 2022, in which information containing, *inter alia*, following matters have been published:

- Intimation of Annual General Meeting (AGM) scheduled to be held on Friday, 12<sup>th</sup> August, 2022 at 10.30 a.m. IST, through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Listing Regulations.
- Manner of registering / updating email addresses by members, for obtaining Notice of AGM, Annual Report 2021-22 and/or login credentials for joining the AGM through VC/ OAVM including e-voting.
- 3. Manner of casting vote(s) through e-voting.
- 4. Manner of registering mandate for receiving dividend directly in bank accounts.
- 5. Book closure from Monday, 25<sup>th</sup> July, 2022 to Friday, 29<sup>th</sup> July, 2022 (both days inclusive).

Thanking you.

Yours faithfully

For DABUR INDIA LIMITED

(A K Jain

E V P (Finance) & Company Secretary

Encl: as above

A

# NGO SEEKS BAN ON BIDDERS

# LIC's plan to sell RCap bonds hits fresh hurdle

**RAJESH KURUP** Mumbai, July 12

THE MOVE BY Life Insurance Corporation of India (LIC) to sell secured bonds of Reliance Capital worth ₹3,400 crore has hit another roadblock. Now, a nongovernmental organisation (NGO) is seeking a ban on the bidders who are part of the bankruptcy process.

New Delhi-based NGO, Infrastructure Watchdog, has alleged that the prospective bidders are 'insiders' as defined under Sebi rules as they were given access to privileged and confidential business information. This includes Unpublished Price Sensitive Information, which is not available in the public domain, the NGO said in a letter to LIC and its advisor — IDBI Capital Markets & Securities.

The letter was also marked to the Securities and Exchange Board of India (Sebi) officials and the administrator for RCap's Corporate Insolvency



Resolution Process (CIRP).

"As part of the CIRP, the administrator had invited Expression of Interests (EoI) for RCap and its assets from the prospective bidders. Several prospective bidders, who are interested in acquiring RCap, have submitted their EoIs and are conducting due diligence," the letter said, adding, that these bidders are privy to crucial information.

Additional members of the Committee of Creditors (CoC), constituted by the administrator, also have access to and possess sensitive information. Several CoC members have also submitted their EoIs and are conducting due diligence. Such members are also 'insiders' under Sebi's (Prohibition of Insider Trading) Regulation, 2015, it added. The NGO also wants LIC and

IDBI Capital Markets to ensure that such persons are considered ineligible to participate in the bond sales process. On eligibility, Infrastructure Watchdog asked the sellers to obtain an undertaking from bidders that they neither submitted any nor will participate in RCap's bankruptcy process and are not members of the CoC.

Earlier on Monday, LIC extended the deadline to submit bids for bond sales to July 22, following a tepid interest from the prospective bidders. LIC has been trying to sell the bonds, now trading at a 70% discount, since July 2021. The insurer had made two attempts earlier but failed as it could not arrive at a price consensus with the

Keva

prospective buyers.

production by 42% SANDIP DAS New Delhi, July 12 forestry initiative, ITC IS AIMING to increase its annual

ITC to raise pulpwood

pulpwood production to 5 million tonne (MT) from the current level of 3.5 MT in the next four years, as harvesting of trees

grown in Odisha and Chhattisgarh under its agroforestry programme will commence soon. Of the pulpwood production supported by ITC, around half is being used as raw material at its Bhadrachalam paper manufacturing plant in Telangana.

Currently, the company uses around 1.8

MT of pulpwood annually for paper man-

ufacturing.ITC, however, supports eucalyptus plantation under its social forestry initiative, which generates 3.5 MT of pulpwood annually. The company still sources a major chunk of its wood requirement from Bhadrachalam and other adjacent districts. Since the production in these regions has reached a saturation point, it expanded its social forestry programme

in Malkangiri and Jaypore districts

(Odisha) and Bastar, Bijapur, Dantewada

and Sukma districts (Chhattisgarh) a few

years ago. All these districts are located

ITC supports eucalyptus plantation under its social which generates 3.5 MT of pulpwood annually

around 200 km from ITC's Bhadrachalam paper manufacturing plant.

"In the next four years, around 30% of our wood requirement would be sourced from Odisha and Chhattisgarh," Vadiraj Kulkarni, divisional chief executive, paperboard and speciality papers business, ITC told FE

Around 18,000 farmers are associated with the company for growing wood which is used as key raw material in the paper industry. Since the launch of the social and farm forestry programme around two decades ago, ITC has stated that 0.18 million farmers have benefited from the initiative.

Around ₹400 crore has been spent by the company for the promotion of the social forestry programme.

# NATIONAL STANDARD (INDIA) LIMITED

CIN: L27109MH1962PLC265959 Regd. Office: 412, Floor- 4, 17G, Vardhaman Chamber, Cawasji Patel Road, Horniman Circle, Fort, Mumbai - 400 001; **Tel.:** 91.22.67737373; **Fax:** +912223024420 Website: www.nsil.net.in; E-mail: Investors.nsil@lodhagroup.com

EXTRACTS OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER

**ENDED ENDED 30-JUNE-2022** 

Sr. No.	Particulars	For the Quarter ended 30-Jun-22	For the Quarter ended 30-Jun-21	For the year ended	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
1	Total Income from Operations	353.75	316.05	4,484.97	
2	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	225.74	254.44	3,391.50	
3	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	225.74	254.44	3,391.50	
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	156.38	111.93	2,460.82	
5	Total Comprehensive Income for the period [(Comprising Profit / (Loss) for the period (after	450.00	111.00	0.400.00	
	tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)	156.38	111.93	2,460.82	
6	Equity share capital (Face Value of Rs. 10 each)	2000.00	2000.00	2000.00	
7 8	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year Earnings Per Share (Face Value of Rs. 10 each)			21,615.10	
	(not annualised) "Basic and Diluted	0.78	0.56	12.30	

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Result filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of BSE Limited i.e

www.bseindia.com and of the Company i.e. www.nsil.net.in For and on behalf of the Board

For NATIONAL STANDARD (INDIA) LIMITED

Smita Ghad (Director) DIN: 02447362

# Taxpayer needs to satisfy twin conditions to claim set-off losses: SC

New Delhi, July 12

**INDU BHAN** 

THE SUPREME COURT has held that a taxpayer must fulfil the twin conditions of furnishing a declaration to avail the benefit of carrying forward or set off of any loss and doing this before the due date of filing the original return of income. Setting aside the Kar-

nataka High Court's contrary view that the requirement of furnishing a declaration is mandatory, but the time limit within which the declaration is to be filed is an only directory, a Bench led by Justice MB Shah held that the HC had committed a grave error and its view "is erroneous and contrary to the unambiguous language contained in Section 10B (8) of the ITAct."

"We hold that for claiming the benefit under Section 10B (8) of the IT Act, the twin conditions of furnishing a declaration before the assessing officer and that too before the due date of filing the original return of income under section 139(1) are to be satisfied and both are mandatory to be complied with," it said, adding that the wording of Section 10B (8) is "very clear and unambiguous."

It held that Wipro, cannot claim a tax benefit of ₹15.48 crore as it had failed to fulfil the twin conditions for carrying forwarding of losses under Section 72.

#### NIIT NIIT LIMITED Regd. Office: Plot No. 85, Sector 32,

CIN: L74899DL1981PLC015865 Phone: +91 (124) 44293000; FAX: +91 (124) 4293333 Website: www.niit.com; E-mail: investors@niit.com NOTICE OF 39TH ANNUAL GENERAL MEETING Notice is hereby given that the 39th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of

Institutional Area, Gurugram - 122001, Haryana

NIIT Limited ("the Company") will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") on Friday, August 5, 2022 at 11:30 A.M. (IST) to transact the business, as set out in the Notice of the AGM. In accordance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 and Rules made

thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular 2/2022 dated May 5, 2022 and other circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by Securities and Exchange Board of India (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"), the Notice of AGM and Annual Report have been sent in electronic mode only, to the members whose e-mail addresses are registered with the Company/the Depository Participants. The requirements of sending physical copy of the Notice of the AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide said Circulars. The electronic dispatch of Annual Report to the members has been completed on July 12, 2022. The aforesaid Notice and Annual Report are also available on the website of the Company i.e. www.niit.com and on the website of the Stock Exchanges i.e., www.bseindia.com and

n Notice of AGM or Annual Report shall be available electronically for inspection by members upon request to the Company by sending email at investors@nift.com

Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from nembers to cast their votes remotely, using the electronic voting system ("remote e-voting" through VC/OAVM facility, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM if not voted earlier through remote e-voting.

form, as on the cut-off date i.e., Friday, July 29, 2022, shall be entitled to cast vote by remote e-voting or attend the meeting through VC/OAVM and cast vote at AGM. The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date. The remote e-voting period shall commence on Monday, August 1, 2022 (9:00 A.M. IST) and ends on Thursday, August 4, 2022 (5:00 P.M. IST). The emote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member through remote e-voting, it cannot be changed subsequently. In case of voting by remote e-voting and also e-voting at the AGM, vote casted through remote e-voting will be considered final and e-voting at the AGM will not

the notice and holding shares as of the cut-off date i.e., Friday, July 29, 2022, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdi.co.in or rta@alankit.com However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote

Mr. Nityanand Singh, Company Secretary (Membership No. FCS 2668) of M/s. Nityanand Singh & Co., Practicing Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

register themselves by sending request mentioning their name, demat account / folio number, email id, mobile number through their registered email to the Company at investors@niit.com. The Speaker Registration will be open till Friday, July 29, 2022. Only person who shall be member as on the cut-off date shall be entitled to register and participate

details are requested to register/ update their email address and KYC details with their

requested to update their email address, bank account details and other KYC details with the Company's Registrar and Share Transfer Agent i.e., Alankit Assignments Limited at

may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com of call on toll free no.: 1800-1020-990 or 1800-224-430 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013. By Order of the Board

Company Secretary & Compliance Officer

#### S H KELKAR AND COMPANY LIMITED CIN No: L74999MH1955PLC009593

Registered Office: Devkaran Mansion, 36, Mangaldas Road, Mumbai - 400002 Corporate Office: Lal Bahadur Shastri Marg, Mulund (West), Mumbai - 400080 Tel No: +91222164 9163 | Fax No: +91222164 9161 Website: www.keva.co.in | Email ld: investors@keva.co.in

#### NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. REMOTE E-VOTING, BOOK CLOSURE AND FINAL DIVIDEND

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 66th Annual General Meeting ("AGM") of S H Kelkar and Company Limited ("the Company") will be held on Wednesday, August 10, 2022 a 4:30 p.m. IST through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as contained in the Notice convening the AGM which has been sent to all Members at their Registered e-mail IDs provided by them, together with the Innual Report. The deemed venue for the AGM shall be the Registered Office of t Company i.e. Devkaran Mansion, 36, Mangaldas Road, Mumbai - 400002

In accordance with the General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 read with Genera Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 and General Circular No. 17/2020 dated April 13 2020 and General Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020 and General Circular No 33/2020 dated September 29, 2020 and General Circular No. 39/2020 dated December 2020 and General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021; General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021 and General Circular No. 2/2022 dated May 05, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), Notice of the AGM along with the Annual Report for financial year 2021-22 has been sent on July 12, 2022 through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depositories. Members may note that the Notice and Annual Report for financial year 2021-22 is also available on the Company's website www.keva.co.in, websites of the stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at <a href="https://www.bseindia.com">www.nseindia.cm</a> respectively and on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") a

The Company is pleased to inform that in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44(1) and 44(2) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Regulations"), the Company has provided remote e-voting and e-voting facility at the AGM through CDSL Platform which shall enable the Members to cast their votes electronically on the resolutions mentioned in the Notice of the AGM.

The details pursuant to the provisions of the Act and Rules are given hereunder:

- Date of completion of dispatch of the AGM and Annual Report through email: July 12, 2022 Date and time of commencement of remote e-voting: Saturday, August 06, 2022 (9:00 a.m.)
- Date and time of end of remote e-voting: Tuesday, August 09, 2022 (5:00 p.m.)
- The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter Members of the Company, holding shares as on the cut-off date of Wednesday, Augus 03, 2022 shall only be entitled for dividend and casting their vote through remote e voting and e-voting at AGM.
- Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Wednesday, August 03, 2022, may obtain the login ID and password by sending a request at voting@cdsl.co.in
- Once a vote is cast by the Member, he/she/it shall not be allowed to change it
- The facility for e-voting shall be made available at the AGM and Members who cast their vote by remote e-voting prior to AGM may also attend the AGM but shall not be entitled
- If any votes are cast by the Members through the e-voting available during the AGM and if the same Members have not participated in the AGM through VC/OAVM facility, the votes cast by such Members shall be considered invalid as the facility of e-voting during the Meeting is available only to the Members attending the Meeting. Members who have not registered their email addresses with their depository

participants are requested to register/update their email addresses with the Depositor Participants with whom the demat accounts are being maintained. in case of any queries pertaining to e-voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available a

evotingindia.com or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr Rakesh Dalvi (022-23058542/1800 22 55 33) NOTICE IS FURTHER GIVEN THAT pursuant to Section 91 and other applicable provisions, if any, of the Act read with Rules framed thereunder and Regulation 42 of the

(both days inclusive) for annual closing and determining the entitlement of the members to the final dividend for the financial year ended March 31, 2022. Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote

SEBI Regulations, the Register of Members and the Share Transfer Books of the

Company will remain closed from Thursday, August 04, 2022 to Tuesday, August 10, 2022

through remote e-voting and e-voting at the AGM. By Order of the Board of Directors of S H KELKAR AND COMPANY LIMITED

CIN: L74999MH1955PLC009593 Place : Mumbai Rohit Saraogi Date : July 12, 2022 Company Secretary

## DABUR INDIA LIMITED

CIN: L24230DL1975PLC007908 Regd. Off: 8/3, Asaf Ali Road, New Delhi-110 002 Phone: 011-23253488; Fax: 011-23222051 Website: www.dabur.com, Email for investors: investors@dabur.com

## NOTICE TO SHAREHOLDERS REGARDING 47TH ANNUAL GENERAL MEETING

Place: Mumbai

Date: July 12, 2022

Notice is hereby given that the Forty-seventh Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Friday, August 12, 2022 at 10:30 A.M. **IST**, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 and General Circulars No. 02/21 dated January 13, 2021, 20/2021 dated December 08, 2021 and 21/2021 dated December 14, 2021, and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), without the physical presence of members at a common venue. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM only. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of guorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circulars, the Notice of AGM and the Annual Report 2021-22 including the standalone

and consolidated financial statements for the financial year 2021-22, along with Directors' Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, will be sent only by email to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website at **www.dabur.com** and on the website of the Stock Exchanges BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on the website of Company's Registrar and Transfer Agent, KFin Technologies Limited ("KFin"), at https:// evoting.kfintech.com or https://emeetings.kfintech.com/ Notice pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Monday, July 25, 2022 to Friday, July 29, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM and ascertainment of members for entitlement of final dividend on equity shares of the Company for the financial year 2021-22 if approved by the members in the AGM scheduled for August 12, 2022.

Manner of registering / updating email addresses for obtaining Notice of AGM, Annual Report 2021-22 and/or login credentials for joining the AGM through VC/ OAVM including e-voting

- Members who have not registered their email address and in consequence the Annual Report, Notice of AGM and e-voting instructions cannot be serviced, may temporarily get their email address and mobile number registered with KFin, by accessing the link: https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx. Members are requested to follow the process as guided to capture the email address and mobile number for sending the soft copy of the notice and e-voting instructions along with the User ID and Password. In case of any queries, member may write to einward.ris@kfintech.com.
- Alternatively, member may send an e-mail request at the email id einward.ris@kfintech.com along with scanned copy of the signed copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and copy of share certificate in case of physical folio for sending the Annual report, Notice of AGM and the e-voting instructions.

In order to enable the Company to comply with MCA circulars and to participate in the green initiative in Corporate Governance, members are requested to register their email addresses in respect of shares held in electronic form with their Depository Participant(s) permanently for sending the Annual report, Notice of AGM and the e-voting instructions.

Manner of casting vote(s) through e-voting and joining the AGM

(a) Members can cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system

(b) The manner of voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for

- members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of AGM. (c) The facility for e-voting will also be made available at the AGM and Members attending the AGM who have not cast
- their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM.
- (d) The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to the members through email. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company / KFin / Depository Participant(s), may generate login credentials by following instructions given in the Notes to Notice of AGM.
- (e) The same login credentials may also be used for attending the AGM through VC / OAVM.

Manner of registering mandate for receiving Dividend directly in Bank accounts: Physical Holding: Members may send following details / documents by email to the Company at investors@dabur.com or to its RTA

at einward.ris@kfintech.com scanned copy of duly filled and signed Form ISR-1 alongwith necessary documents for updation of KYC. The format of Form ISR-1 is available on company's website **www.dabur.com** 

Demat Holding: Members holding shares in dematerialized mode are requested to register / update their Bank details with

their Depository Participant. In case the Company is unable to pay the dividend to any member by electronic mode, due to non registration of Bank

details by Member, the Company shall dispatch the dividend warrant/ bankers cheque/ Demand Draft to the member. Payment of dividend will be subject to deduction of tax at source (TDS) at applicable rates. For more information please refer Note No. 14 of the Notice of AGM

Nikunj Stock Brokers Limited

Place: New Delhi

Date: 12.07.2022

Address

For Dabur India Limited A. K. Jain **EVP (Finance) & Company Secretary** 

The Promoter Acquirers have furnished a Bank Guarantee of an amount of ₹2,60,00,000.00/- (Rupees Two Crore Sixty Lacs Only) issued by IDBI Bank Limited, a Banking Company registered under Companies Act, 1956 and having its registered office at IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400005, Maharashtra, India and one of its office at Trade Finance Department, Specialised Corporate Branch, Panampilly Nagar, Post Bag No 4253, Kochi - 682036, Kerela, India in favor of Manager to the Offer ('Bank Guarantee') being equal to 25.00% (Twenty-Five Percent) of the Maximum Consideration. The Manager to the Offer has been duly authorized to realize the value of aforesaid Bank Guarantee in terms of the SEBI (SAST) Regulations and the terms set out in the Bank Guarantee;

The Manager has been duly authorized in accordance with the SEBI (SAST) Regulations and pursuant to the terms of the Escrow

Agreement to realize the Bank Guarantee to meet the obligations of the Promoter Acquirers in connection with the Offer. The

Bank Guarantee shall remain valid until the closure of offer period or March 31, 2023. In the event the Promoter Acquirers propose

to complete the transactions under the Share Purchase Agreement, prior to the expiry of the Offer period, the Promoter Acquirers

shall prior to such completion, deposit 100.00% (Hundred Percent) of the Offer Size in cash with the Escrow Banker, in a Escrow Account with a irrevocable lien marked in the favor of the Manager to the Offer to encash the proceeds in terms of the SEBI (SAST) Regulations. The Manager to the Offer shall thereafter return the Bank Guarantee to the Escrow Banker and refund the Cash Based on the aforesaid financial arrangements and on the confirmations received from the Escrow Banker and the Chartered

Accountant, the Manager is satisfied with the ability of the Promoter Acquirers to fulfill their obligations in respect of this Offer in accordance with the provisions of SEBI (SAST) Regulations In case of upward revision of the Offer Price and/or the Offer Size, the Promoter Acquirers would deposit appropriate additional

amount into an Escrow Account to ensure compliance with Regulation 18(5) of the SEBI (SAST) Regulations, prior to effecting

STATUTORY AND OTHER APPROVALS

As on the date of this Detailed Public Statement, to the knowledge of the Promoter Acquirers, there are no statutory approvals required to complete this Offer. However, in case of any such statutory approvals are required by the Promoter Acquirers later before the expiry of the Tendering Period, this Offer shall be subject to such approvals and the Promoter Acquirers shall make the necessary applications for such statutory approvals. All Public Shareholders, including non-resident holders of Equity Shares, must obtain all requisite approvals required, if any, to tender

the Offer Shares (including without limitation, the approval from the Reserve Bank of India) and submit such approvals, along with the other documents required to accept this Offer. In the event such approvals are not submitted, the Promoter Acquirers reserve the right to reject such Equity Shares tendered in this Offer. Further, if the holders of the Equity Shares who are not persons resident in India had required any approvals (including from the Reserve Bank of India, or any other regulatory body) in respect of the Equity Shares held by them, they will be required to submit such previous approvals, that they would have obtained for holding the Equity Shares, to tender the Offer Shares, along with the other documents required to be tendered to accept this Offer. In the event such approvals are not submitted, the Promoter Acquirers reserve the right to reject such Offer Shares.

The Promoter Acquirers shall complete all procedures relating to the payment of consideration under this Offer within a period of 10 (Ten) Working Days from the date of expiry of the Tendering Period to those Public Shareholders who have tendered Equity Shares and are found valid and are accepted for acquisition by the Promoter Acquirers. In case of delay in receipt of any statutory approval, SEBI may, if satisfied that delayed receipt of the requisite approvals was not

due to any wilful default or neglect of the Promoter Acquirers or the failure of the Promoter Acquirers to diligently pursue the application for the approval, grant extension of time for the purpose, subject to the Promoter Acquirers agreeing to pay interest to the Public Shareholders as directed by SEBI, in terms of Regulation 18(11) of the SEBI (SAST) Regulations. Further, if a delay occurs on account of wilful default by the Promoter Acquirers in obtaining the requisite approvals, Regulation 17(9) of the SEBI (SAST) Regulations will also become applicable and the amount lying in the Escrow Account shall become liable for forfeiture. In terms of Regulation 23(1) of the SEBI (SAST) Regulations, if the approvals mentioned in Paragraph VII (A) are not satisfactorily complied with or any of the statutory approvals are refused, the Promoter Acquirers have a right to withdraw the Offer. In the event of withdrawal, the Promoter Acquirers (through the Manager), shall within 2 (Two) Working Days of such withdrawal, make an announcement stating the grounds for the withdrawal in accordance with Regulation 23(2) of the SEBI (SAST) Regulations, in the same newspapers in which the Detailed Public Statement was published, and such announcement will also be sent to SEBI, Stock Exchanges, and the Target Company at its registered office.

VIII. TENTATIVE SCHEDULE OF ACTIVITY Tentative Activity Schedule Day and Date Issue date of the Public Announcement Wednesday, July 06, 2022 2. Publication date of the Detailed Public Statement in the Newspapers Wednesday, July 13, 2022 3. Last date for filing of the Draft Letter of Offer with SEBI Wednesday, July 20, 2022 Wednesday, August 03, 2022 4. Last date for public announcement for a competing offer(s)# 5. Last date for receipt of comments from SEBI on the Draft Letter of Offer will be received (in the event SEBI has not sought clarification or additional information from the Manager) Thursday, August 11,2022 6. Identified Date\* Wednesday, August 17, 2022 Last date for dispatch of the Letter of Offer to the Public Shareholders of the Target Company whose names appear on the register of members on the Identified Date Wednesday, August 24, 2022 8. Last date for publication of the recommendations of the committee of the independent directors of the Target Company to the Public Shareholders for this Offer in the Newspapers Monday, August 29, 2022 9. Last date for upward revision of the Offer Price and / or the Offer Size Tuesday, August 30, 2022 10. Last date of publication of opening of Offer public announcement in the Tuesday, August 30, 2022 11. Date of commencement of Tendering Period Thursday, September 01, 2022 12. Date of closing of Tendering Period Wednesday, September 14, 2022 13. Last date of communicating the rejection/ acceptance and completion of paymen of consideration or refund of Equity Shares to the Public Shareholders Wednesday, September 28, 2022 Note: The above timelines are indicative (prepared based on timelines provided under the SEBI (SAST) Regulations) and are

subject to receipt of statutory/regulatory approvals and may have to be revised accordingly. To clarify, the actions set out above may be completed prior to their corresponding dates subject to compliance with the SEBI (SAST) Regulations; PROCEDURE FOR TENDERING THE EQUITY SHARES IN CASE OF NON-RECEIPT OF LETTER OF OFFER As per the provisions of Regulation 40 (1) of the SEBI (LODR) Regulations and SEBI's press release dated December 03, 2018, bearing reference number 'PR 49/2018', requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held

in dematerialized form with a depository with effect from April 01, 2019. However, in accordance with SEBI bearing reference number 'SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/144 dated July 31, 2020', shareholders holding securities in physical form are allowed to tender shares in an open offer. Such tendering shall be as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations. Accordingly, Public Shareholders holding Equity Shares in physical form as well are eligible to tender their Equity Shares in this Offer as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations. All Public Shareholders, registered or unregistered, holding the Equity Shares in dematerialized form or holding locked-in Equity

Shares are eligible to participate in this Offer at any time during the period from the Offer Opening Date and Offer Closing Date before the closure of the Tendering Period. All Public Shareholders who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Offer. The accidental omission to send the Letter of Offer to any person to whom the Offer is made or the non-receipt or delayed receipt of the Letter of Offer by any such person will not invalidate the Offer in any way.

form of a separate window as provided under the SEBI (SAST) Regulations read with Acquisition Window Circulars. BSE Limited shall be the Designated Stock Exchange for the purpose of tendering Offer Shares in the Offer.

The Promoter Acquirers have appointed Nikuni Stock Brokers Limited as the registered broker for this Offer, through whom the purchases and the settlement of the Offer shall be made. The contact details of the Buying Broker are as mentioned below:

A-92, Gf, Left Portion, Kamla Nagar, New Delhi-110007, Delhi, India

**Contact Number** +91-011-47030000/01 info@nikunjonline.com E-mail Address Contact Person Mr. Pramod Kumar Sultania All Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares under the Offer would have to intimate their respective stockbrokers ('Selling Brokers') within the normal trading hours of the secondary market, during the Tendering Period. THE DETAILED PROCEDURE FOR TENDERING THE EQUITY SHARES IN THE OFFER WILL BE AVAILABLE IN THE LETTER OF OFFER THAT WOULD BE MAILED OR COURIERED TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY AS

ON THE IDENTIFIED DATE. KINDLY READ IT CAREFULLY BEFORE TENDERING THE EQUITY SHARES IN THIS OFFER.

EQUITY SHARES ONCE TENDERED IN THE OFFER CANNOT BE WITHDRAWN BY THE PUBLIC SHAREHOLDERS. OTHER INFORMATION The Promoter Acquirers accept full and final responsibility for the information contained in the Public Announcement and this Detailed Public Statement and for their obligations as laid down in SEBI (SAST) Regulations. All information pertaining to the Target

Company has been obtained from (i) publicly available sources, or (ii) any information provided or confirmed by the Target Company, and the accuracy thereof has not been independently verified by the Manager. The Promoter Acquirers have appointed Purva Sharegistry (India) Private Limited, as the Registrar to the Offer, having their office located at Unit No. 9, Ground Floor, Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Boricha Marg, Lower Parel East, Mumbai – 400011, Maharashtra, India, with contact number being '+022-23012518/6761', Email Address being 'support@purvashare.com' and website 'www.purvashare.com'. The contact person Ms. Deepali Dhuri, the contact person can be contacted from 10:00 a.m.

(Indian Standard Time) to 5:00 p.m. (Indian Standard Time) on working days (except Saturdays, Sundays, and all public holidays), during the Tendering Period.

Pursuant to Regulation 12 of the SEBI (SAST) Regulations, the Promoter Acquirers have appointed Capital Square Advisors Private Limited as the Manager. This Detailed Public Statement will be available and accessible on the websites of Manager at www.capitalsquare.in, SEBI at

www.sebi.gov.in, and BSE at www.bseindia.com. Issued by the Manager to the Offer on behalf of the Promoter Acquirers

Teaming together to create value

CAPITALSQUARE ADVISORS PRIVATE LIMITED 205-209, 2nd Floor, AARPEE Centre, MIDC Road No 11, CTS 70, Andheri (East), Mumbai - 400093, Maharashtra, India Contact Details: +91-22-6684-9138/ 145/ 138

Website: www.capitalsquare.in Email Address: tanmoy.banerjee@capitalsquare.in/ pankita.patel@capitalsquare.in Contact Person: Mr. Tanmoy Banerjee/ Ms. Pankita Patel

SEBI Registration Number: INM000012219 Validity: Permanent Corporate Identification Number: U65999MH2008PTC187863

For and on behalf of the Promoter Acquirers

Place: Mumbai Mr. V S Ranganathan Date: Tuesday, July 12, 2022 (Promoter Acquirer 1)

financialexp.epap.in

The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM and referred n compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with

time to time and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by The Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to its members, to vote from a place other than venue of the AGM ('remote e-voting"). The Company is providing facility to its for participation in the AGM through VC/OAVM facility and e-voting during the AGM through National Securities Depositories Limited ("NSDL"). The procedure/instructions in this respect have been provided in notes to the Notice of AGM. Members of the Company under the category of Institutional/ Corporate shareholders are encouraged to attend and participate in the AGM through VC/OAVM and vote thereat. The Members participating in the AGM

The members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized

Any person, who acquires shares and become member of the Company after dispatch of

Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may

Shareholders holding shares in dematerialized mode and have not updated their KYC Shareholders holding shares in physical mode and have not updated their KYC details are

In case of any queries relating to e-voting or attending AGM through VC/OAVM, members

Place: Gurugram Date: July 12, 2022

Deepak Bansal

The Offer will be implemented by the Target Company through Stock Exchange Mechanism made available by BSE Limited in the

New Delhi

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 12 जुलाई।

भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले में वरवर राव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 19 जुलाई को सुनवाई करेगा। याचिका में बंबई हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उनकी डिफाल्ट जमानत की अपील को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति यूयु ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने मंगलवार को सुनवाई की तारीख तय करते हुए राव की अंतरिम सुरक्षा भी बढ़ा दी। 83 वर्षीय वरवर राव चिकित्सकीय आधार पर जमानत पर थे। जबिक अन्य दो आरोपी जेल में बंद हैं। तीनों आरोपियों ने बंबई हाई कोर्ट के

एक दिसंबर, 2021 के एक आदेश को चुनौती दी थी। इस मामले में सह-अभियुक्त वकील सुधा भारद्वाज को डिफाल्ट जमानत दी गई थी, लेकिन कुछ अन्य आरोपियों को डिफाल्ट जमानत से

मुंबई, 12 जुलाई (भाषा)।

ने यह जानकारी दी।

इसकी गति बहत धीमी है।

वाहनों की आवाजाही धीमी है।

मुंबई में भारी बारिश से सड़कें

लबालब, यातायात हुआ ठप

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा 'ऑरेंज

अलर्ट' जारी किए जाने के बाद मंगलवार को सुबह मुंबई

और उसके उपनगरों में तेज हवाएं चलने के साथ ही भीषण

बारिश हुई, जिसके बाद महानगर में जगह -जगह पर

जलजमाव के कारण यातायात प्रभावित हुआ। अधिकारियों

डाकयार्ड रेलवे स्टेशन के पास एक पेट्रोल पंप के नजदीक

एक पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया। बाद में पेड़

को हटा दिया गया और यातायात बहाल हुआ, लेकिन

कहलाने वाली लोकल ट्रेन सेवाओं में पांच से दस मिनट

का विलंब है। बहरहाल, मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे के

अधिकारियों ने बताया कि लोकल ट्रेन सेवाएं सामान्य रूप

से चल रही हैं। मुंबई पुलिस ने बताया कि कुछ स्थानों पर

दो फुट तक पानी भर गया है और कुछ पश्चिमी उपनगरों में

से महानगर में एक बार फिर भारी बारिश शुरू हुई। शहर

और उपनगरों में मंगलवार सुबह से लगातार बारिश हो रही

है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अंधेरी उपनगर

में दो फुट तक पानी भर गया है और वहां यातायात को

एसवी रोड की ओर मोड़ा गया है। बांद्रा-वर्ली सी लिंक के

दक्षिण की ओर के इलाकों में, महालक्ष्मी जंक्शन पर और

गामादिया जंक्शन पर भी पानी भर गया है।

कुछ दिन तक हल्की बारिश होने के बाद सोमवार रात

कुछ यात्रियों ने दावा किया कि मुंबई की जीवनरेखा

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हार्बर लाइन के

तीनों आरोपियों ने बंबई हाई कोर्ट के एक दिसंबर, 2021 के एक आदेश को चुनौती दी थी।

मामले में सह-अभियुक्त वकील सुधा भारद्वाज को डिफाल्ट जमानत दी गई थी, लेकिन कुछ अन्य आरोपियों को डिफाल्ट जमानत से वंचित कर दिया गया था।

वंचित कर दिया गया था। तीनों याचिकाकर्ता भी इसी में शामिल हैं। मामला 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में आयोजित 'एल्गार परिषद' सम्मेलन में दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित है। इसके बारे में पुणे पुलिस ने दावा किया था कि अगले दिन महाराष्ट्र शहर के बाहरी इलाके में स्थित कोरेगांव-भीमा युद्ध स्मारक के पास हिंसा हुई थी। पूर्ण पुलिस ने दावा किया

प्ररूप संख्या आईएनसी-26

किम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

30 के अनुसरण में ) केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक,

उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4)

और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए)

के मामले में

गोइनफिनिटी टेक्नोलॉजीज्

प्राइवेट लिमिटेड

(CIN: U72900HR2016PTC064240)

जिसका पंजीकृत कार्यालयः **ए–91, द आइकॉन** 

डीएलएफ सिटी, फेज-V, गुडगांव,

हरियाणा-122002 में हैं, के मामले में

तदद्वारा सार्वजनिक सुचना दी जाती है कि यह कंपनी

केन्द्रीय सरकार के समझ कंपनी अधिनियम, 2013

की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है,

जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "हरियाणा

राज्य" से "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" में

स्थानांतरित करने के लिए 29 अप्रैल, 2022 को

आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष

संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण

से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो

वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल

कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में

शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र

जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का

**हारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपरित क्षेत्रीय** 

निदेशक को इस सुचना के प्रकाशन की तारीख से

वीदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी

क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी—2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ

कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत

डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक

कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से

डीआईएन: 07930427

गोइनफिनिटी टेक्नोलॉजीज प्राइबेट लिमिटेड

दिनांक: 12.07.2022 मनीष मेहंदीरत्ता (निदेशक)

ए-91, द आइकॉन डीएलएफ सिटी, फेज-V.

गृह्णांव, हरियाणा-122002

की पृष्टि की मांग की गई है।

....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता

था कि कान्क्लेव को माओवादियों का समर्थन प्राप्त था। मामले की जांच बाद में राष्ट्रीय जांच एजंसी को स्थानांतरित कर दी गई थी।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में राव की ओर से वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर ने सुनवाई स्थिगित करने के सालिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं जताई। लिहाजा पीठ ने मामले को 19 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया और राव को मिली अंतरिम सुरक्षा को बढ़ा दिया। राव ने बंबई हाई कोर्ट द्वारा चिकित्सा आधार पर उन्हें स्थायी जमानत देने से इनकार करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

वरवर राव वर्तमान में मेडिकल आधार पर जमानत पर हैं। उन्होंने वर्तमान विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि अब आगे की कैद उनके लिए मृत्यु की घंटी बजाएगी, क्योंकि बढ़ती उम्र और बिगड़ता स्वास्थ्य एक घातक संयोजन है।

## KISAN SAHKARI CHINI MILLS LTD. NANAUTA(SAHARANPUR) Phone No-01336-254255, E-mail:kscm\_nanauta@yahoo.co.in, www.upsugarfed.org

RE-E-TENDER NOTICE

On line e-tenders are invited from manufacturers/authorized distributors /importers/stockiest/channel partners/authorized dealers (As per details given in tender documents) for supply of following items, to Kisan Sahkari Chini Mills Ltd., Nanauta District Saharanpur. The e-tender documents with detailed specifications, make, terms and conditions etc. can be downloaded from web site http://etender.up.nic.in as per mentioned

SI N.		Technical Bid Opening at 11.15 A.M	Commercial Bid Opening at 2.00 P.M	E.M.D. Rs	ofUp	Starting Date of Uploding E-Tender	
1	Truck Tripler Modification Work	20.07.2022	20.07.2022	25,000/-	12.07	.2022	
2	Boiler Retubebing Work for Season 2022-23	20.07.2022	20.07.2022	20,000/-	12.07	.2022	
3 QUAD 2" Body Calandria H.S. (440M²) Dia of Tube Plate-2930 mm (Internal) Tube Size - OD 45 x ID 42 x 2005 mm length Tube plate thickness - 32 mm Nos. of Tubes - 1687 Ligament 13 mm Calandria Shell Thickness - 12 mm Calandria Shell above top Tube Plate -50 mm Calandria Shell below Bottom Tube Plate -		Technical Bid Opening at 11.15 A.M	Commercial Bid Opening at 2.00 P.M	EMD RS	Starting Date of Uploading E-Tender		
	150 mm  Central down take 500 mm dia  Steam entry - 700 mm with suitable Jacket Tierod - 25 mm (06 Nos)  Condensate out let - 02 Nos. (150 mm)  Suitable ammonia connection (SS 304) out side effective heavy & light noxious Gases proper withdrawal with SS Pipe Suitable 04 Nos Stools.						

E.M.D, experience and other terms and conditions will be available on UPLC e-tender portal http://etender. up.nic.in and federation website www.up.sugarfed.org from the date 12.07.2022 at 6.30 PM from where tender documents may be downloaded by any tender. The tender fee is Rs.590.00 (non refundable) and required E.M.D. by way of RTGS scheduled bank in favor of Kisan Sahkari Chini Mills Ltd Nanauta (Saharanpur) payable at PNB THASKA Account No. 2028002100002564 IFSC Code No PUNB0202800 Nanauta which will be deposited in factory office before opening of Technical bid. E-tender without earnest money shall be liable to be rejected. The General Manager of this unit reserves the right to cancel any or all bids/annual e bidding process without assigning any reason to & decision of General Manager will be final & binding for all. General Manager

डाबर इंडिया लिमिटेड

CIN: L24230DL1975PLC007908 पंजीकृत कार्यालय 8/3, आसफ अली रोड, नई दिल्ली - 110 002 फोन: 011-23253488, फैक्स: 011 23222051 वेबसाइट: www.dabur.com, निवेषकों के लिए इमिल investors@dabur.com

47 वीं वार्षिक सामान्य बैठक के बिषय में सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 47th वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/ अन्य ऑडियो-विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से शुक्रवार, 12 अगस्त, 2022, 10:30 A.M. IST को आयोजित की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों और उसके साथ बनाएं गये नियमों, भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") {सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015, के अनुपालन में और सामान्य परिपत्र नं. 2/2021, 20/2021, 21/2021 और 2/2022 तिथि 13 जनवरी 2021, 8 दिसंबर 2021, 14 दिसंबर, 2021, और 5 मई 2022, क्रमशः और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए") द्वारा जारी अन्य परिपन्न और सेबी ( सामूहिक रूप से "**प्रासंगिक परिपत्र**" के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में, यह सभा एक आम स्थल पर सदस्यों की मौतिक उपस्थिति के बिना की जायेगी। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ही एजीएम में भाग ले सकेगें। भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य के लिए माना जाएगा।

प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और वार्शिक रिपोर्ट 2021-22 सहित स्टैंडअलोन और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए समेकित वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज केवल कंपनी के उन्हीं सदस्यों को ईमेल द्वारा मेजा जाएगा जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (ऑ) के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.dabur.com पर और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट पर, अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे। और कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट KFin Technologies Limited ("KFin"), की वेबसाइट, https:// evoting.kfintech.com या https://emeetings.kfintech.com/ पर भी उपलब्ध होंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ], 2015, के विनियम 42 और 47 के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है की सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तकें सोमवार, 25 जुलाई, 2022 से शुक्रवार, 29 जुलाई 2022 (दोनों दिवस सिहत) तक वार्षिक साधारण बैठक के उद्देश्य के लिए तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में कंपनी के इक्विटी शेयर पर अंतिम लामांश (सदस्यों द्वारा अनुमोदित होने की अवस्था में) के लिए सदस्यों की अधिकारिता निर्धारित करने के उददेश्य से बंद रहेगी।

#### एजीएम की सूचना प्राप्त करने के लिए ईमेल पते को पंजीकृत करने/अपडेट करने का प्रबंध, वार्षिक रिपोर्ट 2021&22 और/या ईवी मतदान सहित वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शमिल होने के लिए लॉगिन आईडी।

- (क) जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है और परिणामस्वरूप वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचना और ई-वोटिंग निर्देशों की सेवा नहीं की जा सकती है, वे अस्थायी रूप से लिंक पर पहुंचकर अपना ईमेल पता और मोबाइल नंबर KFin के साथ पंजीकृत करवा सकते हैं: https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx. सदस्याँ से अनुरोध है कि वे यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ नोटिस और ई-वोटिंग निर्देशों की सॉफ्ट कॉपी पाने के लिए और ईमेल पते और मोबाइल नंबर को रजिस्टर करने के लिए निर्देशित प्रक्रिया का पालन करें। किसी भी प्रश्न के मामले में,
- सदस्य einward.ris@kfintech.com को लिख सकते हैं। (ख) वैकल्पिक रूप से, सदस्य (भौतिक होल्डिंग) ईमेल आईडी einward ris@kdintech.com पर ईमेल पता, मोबाइल नंबर, स्व-सत्यापित पैन प्रति और शेयर प्रमाण पत्र की प्रति प्रदान करने वाले अनुरोध पत्र की हस्ताक्षरित प्रति की स्कैन की गई प्रति के साथ एक ई-मेल अनुरोध भेज सकता है। जिससे वे वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचना और ई-वोटिंग निर्देश प्राप्त कर सकेंगे।

कंपनी को एमसीए परिपत्रों का अनुपालन करने और कॉरपोरेट गवर्नेस में हरित पहल में भाग लेने के लिए सक्षम करने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में अपने ईमेल पते को स्थायी रूप से रजिस्टर करने के लिए अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (ओं) के साथ पंजीकृत करें।

# ई-वोटिंग के माध्यम से वोट (वोटों) को डालना और एजीएम में भाग लेना

- (क) सदस्यों के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("ई-वोटिंग") के माध्यम से एजीएम में प्रेरित होने वाले प्रस्तावों पर अपना वोट डालने का अवसर होगा।
- (ख) डिमैटेरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं. उनके लिए दूरस्थ रूप से ("रिमोट ई-वोटिंग") वोटिंग का तरीका एजीएम के नोटिस में प्रदान किया गया है।
- (ग) ई-वोटिंग की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध होगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में मतदान कर सकेंगे।
- (घ) ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड ईमेल के माध्यम से सदस्यों के लिए उपलब्ध होगा। वे सदस्य जिनका इ—मेल एड्रेस कंपनी / KFin / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (ऑ) के पास पंजीकृत नहीं हैं, वे एजीएम नोटिस में दिए गए निर्देशों का पालन करके लॉगिन आईडी और पासवर्ड उत्पन्न कर सकते हैं।
- (ड) वीसी/ओएवीएम द्वारा आयोजित एजीएम में भाग लेने के लिए ऊपर बताये गए लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।

# सीघे बैंक खातों में लामांश प्राप्त करने के लिए मैंडेट दर्ज करने का प्रबंध:

भौतिक होल्डिंगः सदस्य कंपनी को investors@dabur.com पर या उसके आरटीए को einward.ris@kfintech.com पर ईमेल द्वारा निम्नलिखित विवरण / दस्तावेज भेज सकते हैं।

 KYC को अद्यतन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ Form ISR-1 विधिवत भरे और हस्ताक्षरित करे। Form ISR-1 का प्रारूप कंपनी की वेबसाइट www.dabur.com पर उपलब्ध है

डीमैट होल्डिंगः डीमैटरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपने बैंक डिटेल्स को रजिस्टर/अपडेट करें।

इलेक्ट्रॉनिक बैंक मैंडेट का पंजीकरण नहीं कराने के कारण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा किसी सदस्य को लागांश का भूगतान करने में यदि कम्पनी असफल होती है तो यथा शीघ्र ऐसे सदस्यों को लाभांश वारंट/बैंकर्स चैक/डिमांड डाफ्ट भेजेगी। लाभांष का भुगतान लागू दरों पर स्रोत (टीडीएस) पर कर की कटौती के अधीन होगा। अधिक जानकारी के लिए, एजीएम नोटिस का नोट संख्या 14 देखें।

तिथि : 12.07.2022 स्थान: नई दिल्ली

डाबर इंडिया लिमिटेड के लिए ए. के. जैन ईवीपी (वित्त) और कंपनी सविव

सरफॉएसि अधिनियम

2002 की धारा 13(2) के

अंतर्गत मांग सूचना

## **POONAWALLA** HOUSING FINANCE Apna Char, Apni Pehchan

पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात) पंजीकृत कार्यालय : 602, 6वां तल, जीरो वन आईटी पार्क, सीरि. नं. 79 / 1, घोरपाड़ी, मुंधवा रोड, पुणे-411036

आप निम्न वर्णित ऋणकर्ताओं / सह—ऋणकर्ताओं / गारंटरों ने मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लि. ''एमएचएफएल'' अब नवनामित पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लि. "पीएचएफएल" से अपनी अचल संपत्ति / यों को बंधक रखकर संपत्तिगत सुविधा(ओं) के समक्ष आवास ऋण / ऋणानेक प्राप्त किए हैं। आपने प्रतिभगतान में चक की है और इसीलिए आपके ऋण / ऋणानेक खातों को अनिष्पादनीय परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकत कर दिया गया है। वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत एक मांग सूचना जो है वह बकाया धनराशियों की वसली के लिए अंतिम ज्ञात पतों पर प्रेषित की गई थी, जो प्राप्तकर्ता को प्राप्त हुए बिना ही वापस लौट आई है। अतः, उस सुचना की विषयवस्तु को, प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार, आपको सूचना की वैकल्पिक प्राप्ति हो इस रूप में तथा उस उपाय द्वारा, यहां इस विज्ञापन के अंतर्गत प्रकाशित किया जा रहा है। ऋणकर्ताओं, सह—ऋणकर्ताओं, गारंटरों, प्रतिभूतियों, बकाया धनराशियों, धारा 13(2) के अंतर्गत प्रेषित मांग सूचना तथा उसके अंतर्गत अभ्यर्थित राशि

के विवरण निम्नानुसार दिए गए हैं:

तथा ऋण राशि  इंदु शर्मा,  हिमांशु शर्मा  ऋण राशि:  रु. 27,20,000/—  ऋण सं:  HF/0245/H/20/100337  पवं  HF/0245/H/20/100407  के विवरण  के समस्त वह भाग तथा अंश,	ō .	अध्यकता, सह—ऋगकता,	प्रातभूत पारसपात्त	1111	देय राशि
इंदु शर्मा, वंधककृत संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश, जो स्वामित्वधारक आवासीय फलेट सं. एसएफ—2 के रूप में हैं जो द्वितीय तल (आगे की ओर) पर है जिसका क्षेत्राधिमापन 900 वर्ग फुट है और जो डीएलएफ अंकुर विहार ग्राम लोनी परगना एवं तहसील लोनी जनपद गाजियाबाद (उ.प्र.) में स्थित हैं, और इस प्रकार परिसीमित हैं: पूर्व— भूखंड संख्या बी—1/33, पश्चिम— 12 मीटर चौड़ी सड़क, जिस्का विद्याज के साथ विवास के साथ किया विद्याज के साथ किया किया किया किया किया किया किया किया	Ť.		के विवरण		
		इंदु शर्मा, हिमांशु शर्मा ऋण राशिः रु. 27,20,000/— एवं रु. 28,80,000/— ऋण सं.: HF/0245/H/20/100337 एवं	जो स्वामित्वधारक आवासीय फ्लैट सं. एसएफ—2 के रूप में हैं जो द्वितीय तल (आगे की ओर) पर है जिसका क्षेत्राधिमापन 900 वर्ग फुट है और जो डीएलएफ अंकुर विहार ग्राम लोनी परगना एवं तहसील लोनी जनपद गाजियाबाद (उ.प्र.) में स्थित हैं, और इस प्रकार परिसीमित हैं: पूर्व— भूखंड संख्या बी—1/33, पश्चिम— 12 मीटर	21.06.2022	हजार एक सौ इक्यावन एवं छप्पन पैसे मात्र) प्रतिभुगतान होने तक 14.00% वार्षिक की दर पर भावी ब्याज के साथ

अतः आप ऋणकर्ता/ओं तथा सह—ऋणकर्ता/ओं/गारंटरों को निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के 60 दिवसों के अंदर यहां इसमें उपरोक्त अंकितानुसार भावी ब्याज के साथ उपरांकित मांगी गई राशि का पूर्ण भूगतान कर दें। भूगतान करने में विफल रहने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता जो हैं वे उपरोक्त वर्णित प्रतिभृति / यों को प्रवर्तित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने को बाध्य-विवश होंगे। कृपया ध्यान में रखें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार आपको इस बीच प्रतिबंधित किया जाता है कि आप हमारी सहमति के बिना ऊपर-संदर्भित प्रतिभतियों का विक्रय, पटटा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। कृते पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

स्थानः गाजियाबाद (उ.प्र.) दिनांकः 13.07.2022 (पूर्व में मैंग्मा हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात) प्राधिकृत अधिकारी

पीएफसी कंसिल्टिंग लिमिटेड

(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) कॉर्पोरेट कार्यालय : 9वां तल (ए विंग) स्टेट्समैन हाउस, कर्नॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फैक्स : 011–23443990

निविदा आमंत्रण हेत् सूचना (केवल ई-बोली के माध्यम से) "पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में स्मार्ट मीटरिंग के कार्यान्वयन के लिए एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) सेवा प्रदाता की नियुक्ति" हेतु फर्मों से

खुली निविदा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक बोलियां आमंत्रित की जाती हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप सरकारी ई मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल या हमारी वेबसाइट www.pfcclindia.com (हेड 'निविदा' के अंतर्गत) देख सकते हैं।

डायूडिजिटल ग्लाबल लिमटड पूर्व में डीयुडिजिटल टेक्नोलोजीज लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात Global

पंजीकृत कार्यालयः सी-4 एसडीए सामुदायिक केंद्र हौज खास, नई दिल्ली - 110016 ईमेलः cs@dudigitalglobal.com; वेबसाइटः www.dudigitalglobal.com; दूरभाषः 011-40450533

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों की एक असाधारण आम बैठक ("ईजीएम") बुधवार, अगस्त, २०२२ को दोपहर १२.३० बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमे (''ओएवीएम'')के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें विशेष व्यवसायों लेन–देन, जैसा कि उक्त बैठक की सूचना में निर्धारित किया गया है, किया जाएगा। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में शामिल होने की विस्तृत प्रक्रिया ईजीएम की सूचना में दी गई है। ईजीएम की सूचनाः सूचना इलेक्ट्रॉनिक विधि से उन सदस्यों को प्रेषित कर दी गई है जिनकी ई–मेल

आईडी कंपनी अथवा डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के साथ पंजीकृत हैं। ईजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइत www.dudigitalglobal.com पर भी उपलब्ध है। जिन सदस्यों को नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, वे कंपनी की वेबसाइट से इसका संदर्भ ले सकते हैं या इसे डाउनलोड कर सकते हैं या सी–4 एसडीए सामुदायिक केंद्र हौज खास, नई दिल्ली – 110016 स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी को लिखकर या cs@dudigitalglobal.com पर ई-मेल भेजकर इसकी सॉफ्ट कॉपी के लिए अनुरोध कर सकते हैं। मतदान: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 और संबंधित नियमावली के साथ पठित संशोधित सेर्ब (सुचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली २०१५ के विनियम ४४ के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को ईजीएम में रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग द्वारा वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करना के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड ('सीडीएसएल') की सेवाओं क लाभ उठायाँ है। ईजीएम में रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया बैठक की सूचना में उपलब्ध है। बुधवार 03 अगस्त 2022 कट—ऑफ तिथि को भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले कंपनी व सदस्य, रिमोट ई–वोटिंग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त, कंपन ईजीएम के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान कर रही है।

रिमोट ई–वोटिंग की अवधि रविवार 07 अगस्त 2022 को सुबह 9:00 बजे (आईएसटी) शुरू होगी 🏻 औ मंगलवार 09 अगस्त 2022 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। मतदान के परिणाम संबंधित कानूने के तहत उल्लिखित निर्धारित समय के भीतर घोषित किए जाएंगे और कंपनी की वेबसाइट पर भी पोस्त

हम एतद्दवारा उदव्यक्त करते हैं कि:

दिनांकः 12.07.2022

स्थानः नई दिल्ली

क) रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति मंगलवार 09 अगस्त 2022 को सायं 5:00 बजे (आईएसटी) के बाद नहीं ख) जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान नहीं किया है, उनके लिए ई–वोटिंग की सुविधा

ग) कोई सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी ईजीएम में भाग ले सकता है, लेकिन ईजीएम के दौरान ई–वोटिंग के माध्यम से ईजीएम में दोबारा मतदान

डी) एक व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों व रजिस्टर में कट—ऑफ तारीख यानी बुधवार 03 अगस्त 2022 (दिन के अंत) में दर्ज है, तो केवल वही ईजीएम में रिमोट ई–वोटिंग के साथ–साथ ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा और सदस्यं के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तारीख को कंपनी की चुकता शेयर पूंजी के उनके शेयरों के अनुपात में होंगे

इसके अलावा, हम उन सदस्यों, जिनकी ईमेल आईडी आरटीए/कंपनी या डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है, से अनुरोध करते हैं वे निम्नलिखित तरीके से उपयोगकर्ता विवरण प्राप्त कर सकते हैं: डिमेट रूप में। कृपया अपने डिपॉजिटरी के साथ अपना ई-मेल आईडी अपडेट करें और क्लाइंट शेयरधारक की मास्टर्स कॉपी को cs@dudigitalglobal.com पर भेजें (विषय पंत्ति "USER DETAIL OF DUDIGITAL GLOBAL LIMITED DPID-CLID - -

संपर्क विवरण: किसी भी प्रश्न / शिकायत की स्थिति में सदस्य cs@dudigitalglobal.com पर संपर्क कर सकते हैं। निदेशक मंडल के आदेश र

कृते डीय्डिजिटल ग्लोबल लिमिटेड (पूर्व में डीयूडिजिटल टेक्नोलोजीज लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात

अभिषेक

कंपनी सचिव

नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड की आस्तियों हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना सीआईएन-U72200DL1999PLC098726

ई-मेल आईडी: nstpl@ascgroup.in ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता, 2016 के तहत आस्तियों की बिक्री

(परिसमापनाधीन कम्पनी) परिसमापक : श्री आलोक कुमार अग्रवाल

पंजीकृत कार्यालय : सिंधिया विला, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली, दिल्ली-110023

परिसमापनाधीन कम्पनी के आस्तियों की बिक्री ''जहाँ है जैसे है, जो है यही है, जो कृछ भी है वहीं है तथा उपचार रहित आधार" पर की जा रही है। ई—नीलामी की तिथि एवं समय : 8 अगस्त, 2022 को 2.00 बजे अप. भा.मा.स. से 3.00 बजे अप. भा.मा.स. (5 मिनट

प्रत्येक के असीमित विस्तार सहित) गननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, दिल्ली बेंच द्वारा दिनांक 04 सितंबर, 2020 के आदेश के तहत (आदेश र्क

प्रतिलिपि ०९ सितंबर, २०२० को प्राप्त हुआ) नियुक्त परिसमापक द्वारा गठित परिसमापक द्वारा गठित परिसमापन एस्टेर के हिस्से के रूप में नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड (परिसमापन में) के स्वामित्व वाली संपत्तियों और संपत्तियं की बिक्री। बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई-नीलामी प्लेटफॉर्म www.auctiontiger.in के माध्यम से की जाएगी।

खंड	आस्तियाँ	आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि (रु.	वृद्धि राशि (रु.
		(रु. लाख में)	लाख में)	लाख में)
क	1. संयंत्र और मशीनरी	1. 219.00		
	2. ग्रेटर नोएडा इकाई में भवन का स्क्रैप	2. 6.60		
	3. प्रतिभूतियां और वित्तीय परिसंपत्तियां।	3.17.50		
		कुलरू 243.10	24.31	4.00
ख	ग्रेटर नोएडा यूनिट में "संयंत्र और मशीनरी"	219.00	21.90	4.00
ग	ग्रेटर नोएडा इकाई में भवन का स्क्रैपांड ग	6.60	0.66	0.50
घ	प्रतिभूतियां और वित्तीय आस्तियां	17.50	1.75	0.50

उपरोक्त खंड ग में उल्लिखित ग्रेटर नोएडा इकाई स्थित भवन के स्क्रैप की बिक्री संयंत्र और मशीनरी की बिक्री शर्त पर आधारित है क्योंकि संयंत्र और मशीनरी को भवन में रखा जाता है तथा यह न तो परिसमाप्त के लिए संभव है और न ही व्यवहार्य है कि भवन को गिराने एवं भवन के स्क्रैप को बेचने के बाद संयंत्र औ मशीनरी ध्उपकरण को हटाया जाये और उसे किसी अन्य स्थान पर रखा जाए।

टिप्पणीः इसके अलावा उपरोक्त बिक्री प्रक्रिया दस्तावेज में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन है, जिरं "मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड –ऑक्शन टाइगर" की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है विवरण के लिए, कृपया www.auctiontiger.in या www.nstpl.co पर देखें। बोलियां जमा करने की अन्तिम तिथि : 2 अगस्त, 2022 (मंगलवार)

ई—नीलामी की तिथि : 8 अगस्त, 2022 (सोमवार सम्पर्क नं. : 8447079462 (सुश्री महिमा तुलसियान) एस्केलेशन : यदि उपर्युक्त फोन नम्बर पर पूछताछ का उत्तर नहीं मिलता है तो 91–9711191523 पर हवाट्सएए

मैसेज भेजा जा सकता है।

ई-नीलामी के नियम एवं शर्ते निम्नानुसार हैं . ई—नीलामी अनुमोदित सेवा प्रदाता "भैसर्स ई—प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड—ऑक्शन टाइगर" के माध्यम से ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' उपचार रहित आधार'' पर संचालित र्क

. कम्पनी की आस्तियों के विषय में पूर्ण तथा विस्तृत सूचना दस्तावेज के परिशिष्ट–VI के अनुसार ''ई–नीलार्म प्रक्रिया दस्तावेज'' में उपलब्ध है जो वेबसाइट अर्थात www.auctiontiger.in पर उपलब्ध है। पूर्ण सूचन

प्राप्त करने के लिए यह बिक्री सूचना ''ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज'' के साथ पढ़ी जानी चाहिए। 3. ऑनलाइन नीलामी बिक्री के आस्तियों, ऑनलाइन ई—नीलामी संविदा प्रपत्र, घोषणा एवं वचन प्रपत्र, सामान्व नियम एवं शर्तों सहित पूर्ण ई—नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज वेबसाइट www.auctiontiger.inपर उपलब्ध हैं सम्पर्क करें : श्री प्रवीण कुमार थेवर्91–9722778828 और praveen.thevar@auctiontiger.net प (www.auctiontiger.in लिंक पर जाने पर) इच्छक संविदाकार को निम्नलिखित दो विकल्पों में से किसी एक का उपयोग करते हुए उल्लिखित कम्पनी को सर्च करना होगा : (I) कम्पनी का नाम (नोएडा सॉफ्टवेयर

टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड), अथवा (II) राज्य तथा सम्पत्ति का प्रकार। 4. (क) यदि ब्लॉक क हेतु न्यूनतम एक पात्र संविदाकार है तो अन्य सभी ब्लॉकों हेतु ई–नीलामी निरस्त क दी जायेगी और अन्य सभी ब्लॉकों हेतु प्राप्त ईएमडी, यदि कोई हो, सम्बन्धित संविदाकारों को वापस कर र्द

(ख) यदि ब्लॉक क हेतु कोई पात्र संविदाकार नहीं है तो ब्लॉक ख, ग, घ तथा ङ की ई-नीलामी व्यक्तिगत रूप से संचालित की जायेगी। 5. इच्छुक संविदाकारों को अपनी संविदा जमा करने से पूर्व सम्पत्ति के ऋणभारों, सम्पत्ति के स्वामित्व, बकाय

स्थानीय करों, बिजली तथा पानी के प्रभारों, रखरखाव प्रभारों, लाइसेंसों, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में अपर्न स्वतन्त्र पछताछ कर लेनी चाहिए तथा अपने व्यय पर सम्पत्ति का निरीक्षण कर लेना चाहिए और स्वयं क सन्तुष्ट कर लेना चाहिए। उपर्युक्त सम्पत्तियों का साइट पर निरीक्षण संभावित संविदाकारों द्वारा 8447079462 (सुश्री महिमा तुलसियान) से पूर्व अनुमति लेकर किया जा सकता है। . इच्छुक संविदाकारों को जमा धरोहर राशि (ईएमडी) या तो डीडीध्एनईएफटीध्आरटीजीएस के माध्यम

'नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड, परिसमापनाधीन'', खाता सं: 0602002100319936, पंजाब नैशनल बैंक, नई दिल्ली, शाखा रू ओखला, आईएफएससी कोड :PUNB0060200 में या किसी अनुसूचित बैंक र आहरित ''नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड, परिसमापनाधीन'' के नाम पर डीडी के माध्यम से जम करनी होगी अथवा सम्पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज में प्रदत्त के अनुसार प्रारूप क अथवा प्रारूप ख वं अनुसार ईएमडी राशि हेतु बैंक गारंटी देनी होगी। . इच्छुक संविदाकारों को ई–नीलामी में भाग लेने हेतु (1) पहचान का प्रमाण (2) वर्तमान पते के प्रमाण (3)

पैन कार्ड, (4) वैध ई–मेल आईडी (5) लैंडलाइन या मोबाइल फोन नम्बर, (6) परिशिष्ट 1 के अनुसार शपथपट तथा वचन-पत्र, (७) परिशिष्ट II के अनुसार संविदा आवेदन प्रपत्र, (८) परिशिष्ट प्प के अनुसार संविदाकार द्वारा घोषणा–पत्र की स्व–सत्यापित प्रति सहित ईएमडी अथवा बैंक गारंटी जमा का प्रमाण और निवेदन पत्र जमा करने होंगे, इन परिशिष्टों का प्रारूप सम्पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज से लिए जा सकते हैं। ये दस्तावेज परिसमापक के कार्यालय में या ई—मेल द्वारा नीचे दिये गये पते पर 2 अगस्त, 2022 को 7.00 बजे अप. से पुर

8. पोर्टल (www.auctiontiger.in) पर ई—नीलामी में भाग लेने हेतु पात्र संविदाकारों के नाम का निर्धारण परिसमापक द्वारा किया जायेगा। ई-नीलामी सेवा प्रदाता (मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड-ऑक्शन

टाइगर") पात्र संविदाकारों को यूजर आईडी तथा पासवर्ड उपलब्ध करायेंगे। 9. यदि संविदा ई–नीलामी बन्द होने के समय के अन्तिम 5 मिनटों में रखी जाती है तो बन्द होने का समय

स्वतरू ही असीमित विस्तार के साथ 5 मिनटों के लिए बढ़ जायेगा। जो संविदाकार ई-नीलामी प्रक्रिया बन्व होने के समय उच्चतम बोली (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) जमा करता है उसे सफल संविदाकार घोषित किय जायेगा और इस प्रभाव से उसे इलेक्टॉनिक माध्यम से सचित किया जायेगा जो परिसमापक के अनुमोदन व

10. सफल संविदाकार की ईएमडी बिक्री वसली के भाग के रूप में रख ली जायेगी और संविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले असफल संविदाकारों की ईएमडी वापस कर दी जायेगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा परिसमापक सफल संविदाकार को लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) जारी करेंगे और सफल संविदाकार को बिक्री राशि की बिक्री वसूली की शेष राशि (सफल संविदा राशि – ईएमडी राशि) परिसमापक द्वारा एलओआई वे निर्गमन के 30 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। एलओआई में उल्लिखित समय–सीमा के भीतर सफल संविदाकार द्वारा शेष राशि जमा करने में चूक करने पर सफल संविदाकार द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण राशि

(ईएमडी़कोई अन्य राशि) जब्त कर ली जायेगी। 11. सफल संविदाकार को नीलामी पर रखी सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में प्रयोज्य स्टैम्प ड्यूटी/हस्तान्तरण प्रभार शल्क आदि तथा समस्त स्थानीय करों, ड्यूटी, दरों, अभिनिर्धारण प्रभारों, शुल्कों आदि का वहन करना होगा। 12. परिसमापक को कोई या सभी प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा ई—नीलामी के स्थगित / आस्थगित / निरस्त करने अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में नीलामी कार्यवाही से किसी

सम्पत्ति या उसके किसी भाग को आहरित करने का पूर्ण अधिकार है। 13. सम्पूर्ण बिक्री वसुली के भुगतान के पश्चात बिक्री प्रमाणपत्र / अनुबंध केवल सफल संविदाकार के नाम रे

जारी किया जायेगा और किसी अन्य के नाम में जारी नहीं किया जायेगा। 14. यह बिक्री ऋणशोधन अक्षमता तथा दिवालिया संहिता. 2016 तथा उसके तहत निर्मित विनियमों के प्रावधान

15. इच्छुक संविदाकार(रों) को कम्पनी के व्यवसाय तथा प्रचालनों के ड्यू डिलिजेंस संचालित करने के क्रम परिसमापक के माध्यम से कार्यरत कम्पनी द्वारा संस्थापित तथा अनुरक्षित डाटा रूम ("डाटा रूम") की पहुंच प्रदान की जायेगी। इच्छुक संविदाकारों को ई—नीलामी तिथि तक डाटा रूम में सूचना का एक्सेस उपलब्ध

कराया जायेगा। इच्छ्क संविदाकारों द्वारा डाटा रूम में सूचना तक पहुँच तथा उपयोग समय-समय प परिसमापक द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्रदान किया जायेगा। 16. ई—नीलामी की तिथि एवं समय रू 8 अगस्त, 2022 (सोमवार) को 2.00 बजे अप. से 3.00 बजे अप. तव (5 मिनट के असीमित विस्तार सहित)

> आलोक कुमार अग्रवाल नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड-परिसमापनाधीन

आईबीबीआई पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P00059/2017-2018/10137

पत्राचार का पता रू सी-100, सेक्टर-2 तिथि रू 13 जुलाई, 2022 नोएडा, उ.प्र.—201301 स्थान : गुरुग्राम ई-मेल आईडी:nstpl@ascgroup.ir

#### सेन्ट्रल बेंक ऑफ इंडिया Central Bank of India 1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911 शाखा कार्यालयः शाहबाद मोहम्मदपुर, नई दिल्ली-110061

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) परिशिष्ट-IV |नियम-8(1)| देखें

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाहबाद मोहम्मदपुर, नई दिल्ली शाखा का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने माँग सूचना दिनांक 20.04.2022 जारी की थी, जिसके द्वारा कर्जदारः वेद प्रकाश पुत्र श्री नारायण दास एवं टोनी कुमार पुत्र वेद प्रकाश, को सूचना में उल्लिखित राशि रु.17,48,128.19 (सत्रह लाख अड़तालिस हजार एक सौ अठाईस रूपये एवं उन्नीस पैसे मात्र) उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर अर्जित ब्याज के साथ चुकाने के लिए कहा गया था। कर्जदार के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 08 जुलाई 2022 को ले लिया है। कर्जदार को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन रु.17,48,128.19 (सत्रह लाख अड़तालिस हजार एक सौ अठाईस रूपये एवं उन्नीस पैसे मात्र) साथ ही उस पर 20.04.2022 से ब्याज के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाहबाद मोहम्मदपुर, नई दिल्ली शाखा के प्रभार के भूगतान के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से जिसमें फ्लैट नम्बर 301, तीसरी मंजिल, सम्पत्ति संख्या आरजेड-सी/34, क्षेत्रफल परिमाप 50 वर्ग गज, खसरा नं.14 / 1 पंजीकरण उप–जिला महावीर एन्क्लेव के भीतर, जो मिर्जापुर के नाम ज्ञात एवं जिला-दक्षिण पश्चिमी दिल्ली।

तिथि: 08/07/2022 स्थानः दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड

CIN: L74899DL1987PLC027057 पंजी. कार्याः 401-ए, पीपी टावर्स, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 ई-मेल : stancap.delhi@gmail.com वेबसाइट : http://www.stancap.co.in, 30 जन, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सार


				(रु. लाखों में)
क्रम	विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष
सं.		30.06.2022 ( अनंकेक्षित )	30.06.2021 ( अनंकेक्षित )	31.03.2022 ( अंकेक्षित )
1.	परिचालनों से कुल आय	65.40	8.73	51.20
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	4.82	2.33	9.35
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	4.82	2.33	9.35
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	3.57	1.72	8.27
5.	अविध हेतु कुल व्यापक आय (अविध हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	3.57	1.72	8.27
6.	्रप्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	400.01	400.01	400.01
7.	आरक्षित (अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त )			(57.28)
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) (वार्षिकीकृत नहीं)			2
	क) मूल :	रु.0.09	रु.0.04	रु.0.21
Ш	ख) तरल :	रु.0.09	रु.0.04	रु.0.21

1) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप का सार है। इन वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाईट (http://www.standcap.co.in) पर उपलब्ध हैं।

2) उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई, तथा 12 जुलाई, 2022 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए।

स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के लिये

गौरव जिन्दल





बोर्ड के आदेश र















www.readwhere.com

स्थानः नई दिल्ली तिथि: 12.07.2022

टिप्पणी: